

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





## प्रमुख खबरें

- स्काईमेट ने इस साल भारत के लिए सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून का अनुमान किया है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, केरल में जुलाई-अगस्त में कम बारिश होगी।
- भारत में गेहूँ का उत्पादन 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो लगातार छठे सीजन में अधिक उत्पादन है, जिससे बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- सीएआई ने 2021-22 में भारत में कपास का उत्पादन 360.13 लाख गांठ के शुरुआती अनुमानों से घटाकर 335 लाख गांठ कर दिया है।
- भारतीय चीनी मिल संगठन का अनुमान है कि भारत में चीनी का उत्पादन 350 लाख टन, और निर्यात 90 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।
- 2021/22 में विश्व स्तर पर कपास का उत्पादन 120.2 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, पिछले सीजन की तुलना में 8.4 मिलियन (7.5%) अधिक और 2 सबसे बड़े उत्पादक देशों-

चीन और भारत-में उत्पादन में गिरावट के बावजूद 5 साल के औसत से अधिक होने का अनुमान है।

- दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता भारत में ईंधन की मांग मार्च में बढ़कर तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसमें पेट्रोल की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
- ओपेक ने यूक्रेन संघर्ष, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति और चीन में ओमाइक्रोन कोरोनावायरस संस्करण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण 2022 विश्व स्तर पर तेल की मांग में अनुमान में कटौती की।
- कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में इंडोनेशिया में सीपीओ का उत्पादन 48.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि 2021 में 46.85 मिलियन टन हुआ था।
- कोनाब के अनुसार, ब्राजील में सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के 138.1 मिलियन टन के उत्पादन से 11.4% या 15.7 मिलियन टन कम होने का अनुमान है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.0422	12.04.22	बदलाव (%)
बाजरा	2111.00	2194.00	3.93%
धनिया	12334.00	12660.00	2.64%
रिफाइंड सोया तेल	1493.10	1522.40	1.96%
जीरा	22325.00	22575.00	1.12%
सीसेम सीड	11970.00	12065.00	0.79%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.04.22	12.04.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	479.20	504.50	5.28%
कच्चा तेल	7,378.00	7644.00	3.61%
जिंक	359.10	370.15	3.08%
चांदी	66,992.00	68790.00	2.68%
कॉटन	43,250.00	44190.00	2.17%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.04.22	12.04.22	बदलाव (%)
जौ	3187.00	3107.00	-2.51%
स्टील	55860.00	54480.00	-2.47%
मूंग	7210.00	7057.00	-2.12%
गुड़	1155.50	1133.50	-1.90%
कांटेनऑयलसीडकेक	3082.00	3049.00	-1.07%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	08.04.22	12.04.22	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	1136.50	1098.20	-3.37%
एल्युमीनियम	276.70	269.50	-2.60%
कपास	2190.00	2166.50	-1.07%
निकल	2464.30	2457.70	-0.27%
तांबा	819.80	819.55	-0.03%

## साप्ताहिक समीक्षा

नयी खरीदारी के कारण पिछले सप्ताह सीआरबी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई। ऊर्जा काउंटर की कीमतों में फिर से आग लग गई क्योंकि ओपेक ने यूरोपीय संघ से कहा है कि रूस पर वर्तमान और भविष्य के प्रतिबंध से तेल आपूर्ति को लेकर सबसे खराब झटका लग सकता है और आपूर्ति में कमी की भरपायी करना असंभव होगा, और संकेत दिया कि वह अधिक तेल का उत्पादन नहीं करेगा। नाइमेक्स पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर और एमसीएक्स पर 7800 से अधिक हो गई। शंघाई में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद चीन में मांग के बारे में चिंताओं के कुछ कम होने से तेल की कीमतें भी बढ़ गई। आईईए के सदस्य राष्ट्र तेल की कीमतों को कम करने में मदद करने के लिए अगले छह महीनों में 240 मिलियन बैरल जारी करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें से अमेरिकी भंडार से 180 मिलियन बैरल एक मई से 1 मिलियन बैरल की दर से जारी किए जाएंगे। अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा की कीमतें 13 से अधिक वर्षों के उच्चतम स्तर पर बंद हुई। नाइमेक्स में नेचुरल गैस वायदा की कीमतें 6.6 डॉलर से अधिक हो गई क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सामान्य से अधिक ठंडे मौसम के साथ गैस भंडारण में कमी की संभावना है। अमेरिकी बसंत मौसम के दौरान गैस भंडारों को भरा जाता है लेकिन अभी गैस भंडारमें कमी हो रही है। डॉलर इंडेक्स में तेजी के बावजूद सर्राफा काउंटर में मजबूती बनी रही। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच इक्विटी में कुछ गिरावट के कारण सर्राफा काउंटर में खरीदारी को बढ़ावा मिला। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 53000 के स्तर पर पहुंच गई जबकि चांदी की कीमतें 69000 से कुछ ही अंक दूर 68992 पर पहुंच गई। बेस मेटल में, जापान के लिए कम प्रीमियम के कारण केवल एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट हुई। अप्रैल से जून के लिए जापानी खरीदारों को एल्युमीनियम शिपमेंट के लिए प्रीमियम 172 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया गया है, जो पिछली तिमाही से 2.8% कम है, क्योंकि रूस से आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं की तुलना में जापान और चीन में अधिक कमजोर मांग है। जिंक की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। एलएई के गोदामों में धातुओं की तेजी से गिरावट, जो एक्सचेंज के भौतिक रूप से डिलीवरी योग्य वायदा कॉन्ट्रैक्टों को संकेत करती है, के परिणामस्वरूप कीमतों में अस्थिरता रह सकती है। यूरोप के एलएई गोदाम में रखे 500 टन जिंक में से केवल 25 टन ही बाजार में उपलब्ध है।

कृषि कमोडिटीज में, ग्वार काउंटर में मामूली रिकवरी हुई। ग्वार गम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 55.6% बढ़कर 31000 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-फरवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़कर 2.95 लाख टन हुआ है। अरंडी वायदा में सीमित बढ़त देखी गई। अरंडी की ऊंची कीमतों के कारण भी स्थानीय व्यापारियों और तेल मिल मालिकों की ओर मांग प्रभावित हुई। बाजार अप्रैल-मई में भारी आवक की उम्मीद कर रहा है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। कम उत्पादन अनुमान के कारण कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष 45.5% से अधिक और इस वर्ष कीमतों में 18.2% की वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण कॉटन वायदा की कीमतों में लगातार सातवें हफ्ते बढ़ोतरी हुई है। घरेलू कपास की आवक पिछले साल की तुलना में इस सीजन में अब तक 25 फीसदी या 88.95 लाख गांठ कम होकर 238 लाख गांठ रह गई है। धनिया की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, धनिया का निर्यात फरवरी 2022 में वर्ष-दर-वर्ष 5.5% बढ़कर 3320 टन हो गया, जो पिछले साल 3150 टन था।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	08.04.22	12.04.22	(%)
जौ	जयपुर	3,182.50	3,134.55	-1.51
चना	दिल्ली	5,210.55	5,132.25	-1.50
धनिया	कोटा	12,088.15	12,614.30	4.35
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	1,421.90	1,464.20	2.97
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,153.85	1,132.25	-1.87
ग्वारसीड	जोधपुर	6,500.00	6,387.50	-1.73
ग्वारगम	जोधपुर	12,811.25	12,450.00	-2.82
जीरा	ऊंझा	22,227.80	22,250.00	0.10
सरसों	जयपुर	7,031.80	7,122.90	1.30
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1,500.00	1,520.00	1.33
सोयाबीन	इंदौर	7,934.00	7,972.00	0.48
हल्दी	निजामाबाद	8,664.70	8,663.15	-0.02
गेहूं	दिल्ली	2,204.10	2,200.00	-0.19
काँटन	कड़ी	43,025.85	43,982.00	2.22
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	3,286.75	3,246.65	-1.22

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	08.04.22	12.04.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	3,385.00	3,267.00	-3.49
तांबा	LME	नकद	10,311.50	10,342.50	0.30
लेड	LME	नकद	2,384.50	2,394.50	0.42
निकल	LME	नकद	33,698.00	32,488.00	-3.59
जिंक	LME	नकद	4,188.00	4,376.00	4.49
सोना	COMEX	जून	1,945.60	1,976.10	1.57
चांदी	COMEX	मई	24.82	25.73	3.67
लाइट क्रूड	NYMEX	मई	98.26	100.60	2.38
नेचुरल गैस	NYMEX	मई	6.28	6.680	6.40

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	08.04.22	12.04.22	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	मई	16.89	16.70	-1.12
सोया तेल	CBOT	मई	75.12	75.43	0.41
काँटन	ICE	मई	132.41	138.51	4.61
सीपीओ	BMD	जून	5,921.00	6,177.00	4.32

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	08.04.22 क्वांटिटी	12.04.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	4150	1134	-3016
कैस्टर सीड	मी.टन	3622	4140	518
धनिया	मी.टन	1370	3281	1911
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	79046	79370	324
ग्वारगम	मी.टन	21495	21298	-197
ग्वारसीड	मी.टन	33631	34590	959
मक्का	मी.टन	1089	1086	-3
जीरा	मी.टन	6121	6716	595
सोयाबीन	मी.टन	1387	1383	-4
हल्दी	मी.टन	2506	2666	160

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	08.04.22 क्वांटिटी	12.04.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	5,771	5,719	-52
तांबा	मी.टन	1,578,059	1,551,249	-26810
सोना	किग्रा	453	453	0
सोना गिनी	किग्रा	14,096	14,096	0
सोना मिनी	किग्रा	458,500	393,500	-65000
लेड	किग्रा	3,584	3,124	-460
निकल	किग्रा	334,890	334,890	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	64,761	63,151	-1610
जिंक	मी.टन	165	55	-110

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 08.04.22	स्टॉक की स्थिति 12.04.22	अंतर
एल्युमीनियम	619,775	609,850	-9,925
तांबा	101,275	105,600	4,325
निकल	74,190	73,452	-738
लेड	39,325	39,325	-
जिंक	127,675	123,675	-4,000



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मई	22675.00	03.01.22	तेजी	17500.00	22250.00	-	22200.00
NCDEX	ग्वारसीड	मई	6445.00	01.04.22	तेजी	6400.00	6310.00	-	6280.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	मई	3059.00	04.04.22	मंदी	3200.00	-	3170.00	3200.00
MCX	रबर	अप्रैल	17235.00	14.12.21	मंदी	17800.00	-	17850.00	17900.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	1098.20	31.03.22	तेजी	1070.00	1045.00	-	1040.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	15375.00	07.02.22	तेजी	14100.00	14750.00	-	14700.00
MCX	चांदी	मई	68790.00	07.02.22	तेजी	61900.00	65850.00	-	65800.00
MCX	सोना	जून	52878.00	07.02.22	तेजी	48200.00	51250.00	-	51200.00
MCX	मेटलडेक्स	अप्रैल	21963.00	16.12.21	तेजी	1670.00	21200.00	-	21000.00
MCX	तांबा	अप्रैल	819.55	16.12.21	तेजी	740.00	807.00	-	805.00
MCX	लेड	अप्रैल	186.30	16.12.21	तेजी	186.00	181.00	-	180.00
MCX	जिंक	अप्रैल	370.15	16.12.21	तेजी	275.00	352.00	-	350.00
MCX	निकल	अप्रैल	2457.00	16.12.21	तेजी	1530.00	2100.00	-	2000.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	269.50	16.12.21	तेजी	218.00	262.00	-	260.00
MCX	एनर्जीडेक्स	मई	8784.00	15.02.22	तेजी	7200.00	8200.00	-	8000.00
MCX	कच्चा तेल	मई	7627.00	15.02.22	तेजी	6800.00	7230.00	-	7200.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	504.50	15.02.22	तेजी	320.00	464.00	-	460.00

\*12/04/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स



### कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 12 अप्रैल 2022 को 7644.00 रु पर बंद हुआ। 08 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 9684.00 रु के उच्च स्तर पर था। 18 फरवरी 2022 को 6469.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 50.063 है। 7450.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7900.00 रु के टारगेट के लिए 7600.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कैस्टरसीड (मई) एनसीडीईएक्स



### कैस्टरसीड (मई) एनसीडीईएक्स

एनसीडीईएक्स में कैस्टरसीड (मई) कॉन्ट्रैक्ट 12 अप्रैल 2022 को 7136.00 रु पर बंद हुआ। 01 अप्रैल 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 7642.00 रु के उच्च स्तर पर था जबकि 08 अप्रैल 2022 को 7050.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 47.282 है। 7050.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7500.00 रु के टारगेट के लिए 7200.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### तांबा (अप्रैल) एमसीएक्स



### तांबा (अप्रैल) एमसीएक्स

एमसीएक्स में तांबा (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 12 अप्रैल 2022 को 819.55 रु पर बंद हुआ। 07 मार्च 2022 को कॉन्ट्रैक्ट 888.35 रु के उच्च स्तर पर था। 09 फरवरी 2022 को 758.00 रु के निचले स्तर पर था।

दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.213 है। 805.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 835.00 रु के टारगेट के लिए 815.00 रु के निकट खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी वायदा (मई) का कारोबार काफी कम दायरे में कारोबार हुआ और 9600 के स्तर पर अच्छा रेजिस्टेंस है। मांग में बढ़ोतरी हो रही है जबकि मौसम के अनुसार आवक सामान्य है। सामान्य मौनसून की उम्मीद के कारण कीमतें साइडवेज रह सकती हैं क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में बुवाई चल रही है। अब कीमतें 9000-10000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नए सीजन में हल्दी की बेहतर मांग के कारण वर्तमान में कीमतें पिछले साल की तुलना में 20% अधिक हैं। नए सीजन की हल्दी बाजार में दस्तक दे रही है और इस समय अधिक निर्यात हो रहा है। वित्त वर्ष 2021/22 के पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में, निर्यात पिछले साल की तुलना में 20.1% घटकर 1.27 लाख टन रह गया है लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 9.2% अधिक है। 2021/22 सीजन के लिए सरकार के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में हल्दी का उत्पादन 11.76 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 11.24 लाख टन था।

जीरा वायदा (मई) की कीमतों में पिछले सप्ताह तेजी के रूझान के साथ कारोबार हुआ लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस अब तक के उच्च स्तर 23495 पर है। मसाला उद्योगों से मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह में, कुछ तकनीकी बिकवाली के कारण 23000 पर रेजिस्टेंस के साथ 21500 तक गिरावट होने की संभावना है। उझा में पुगनी और नई फसल की आवक पिछले वर्ष लगभग 44,000 बैग की तुलना में प्रतिदिन लगभग 28000 बैग (1बैग=55 किग्रा) रह गई है। 2022 में, जीरा की कीमतों में 39% से अधिक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में कम उत्पादन की खबरों पर कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 61% अधिक हैं। पहले सरकारी अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 में जीरा का उत्पादन 7.25 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 7.95 लाख टन उत्पादन हुआ था। अप्रैल-जनवरी में जीरा का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 23% घटकर 1.88 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल 2.44 लाख टन हुआ था।

धनिया वायदा (मई) की वायदा लगातार चौथे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुई और अब रेजिस्टेंस 7 साल के उच्च स्तर 13300 पर है। निर्यात मांग में सुधार के कारण कीमतों को मदद मिल रही है। अब कीमतों को 12350-13300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। वर्तमान में कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 80% अधिक और जनवरी के बाद से 45% अधिक हैं जबकि निर्यात कम हो रहा है। मसाला कंपनियों ने इस साल कीमतों में गिरावट का इंतजार किया, लेकिन उन्हें कीमतों में कोई कमी नहीं दिखी और अब उन्होंने अपनी खरीद शुरू कर दी है, जिससे कीमतों को समर्थन मिलेगा। बाजार में आवक में सुधार हुआ है क्योंकि कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात पिछले साल के 48,350 टन से 15% घटकर 41,100 टन हुआ है, लेकिन 5 साल के औसत की तुलना में 11% अधिक है।

### अन्य कमोडिटीज

कॉटन वायदा (अप्रैल) की कीमतें पिछले सप्ताह 44300 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। अब कीमतें तेजी के रूझान के साथ 42900-45000 के दायरे में कारोबार कर सकती है। उत्पादन में कमी की आशंका, धीमी आवक, बेहतर घरेलू और निर्यात मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 104% अधिक हैं और नए साल में लगभग 30.3% बढ़ी है। बाजार सूत्रों के मुताबिक, घरेलू कपास की आवक इस सीजन में अब तक 25 फीसदी या 88.95 लाख गांठ कम होकर पिछले साल की तुलना में करीब 238 लाख गांठ रह गई है। सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान में, पहले अनुमान में 362 लाख गांठ के कपास उत्पादन से घटकर 340 लाख गांठ कर दिया है। अपनी नवीनतम अप्रैल रिपोर्ट में, यूएसडीए ने 2021-22 में वैश्विक कपास उत्पादन के अनुमान को फरवरी 2022 के 119.9 मिलियन गांठ की तुलना में बढ़ाकर 120.2 मिलियन गांठ (1 अमेरिकी गांठ=218 किग्रा) कर दिया है।

ग्वारसीड वायदा (मई) की कीमतों में काफी कम दायरे में कारोबार हुआ लेकिन देश से ग्वारगम की अधिक निर्यात मांग को देखते हुए रूझान सकारात्मक दिख रहा है। अब अगर कीमतें 6400 के स्तर पर सपोर्ट के साथ 6500 के रेजिस्टेंस स्तर को पार करती हैं तो कीमतें 6700 के स्तर तक कारोबार कर सकती हैं। वर्तमान में, पिछले 5 वर्षों में सबसे कम उत्पादन, कई वर्षों में कम स्टॉक और अच्छी निर्यात मांग की संभावना से कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 65% अधिक हैं। तेल रिगों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 209 बढ़कर 546 हो गई है। जनवरी 2022 में ग्वारगम का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 5% बढ़कर 22300 टन हो गया है, जबकि 2021/22 (अप्रैल-जनवरी) में निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 38.4% बढ़कर 2.64 लाख टन हुआ है।

पिछले सप्ताह में 6% से अधिक गिरावट के बाद अरंडी वायदा (मई) की कीमतों में रिकवरी हुई है। अब कीमतें 7050-7350 के दायरे में कारोबार कर सकती है। आवक में सुधार की उम्मीद है, क्योंकि इस सीजन में कीमतें अच्छी रही हैं। अधिक निर्यात मांग और कम उत्पादन अनुमान के कारण वर्तमान में अरंडी की कीमतें वर्ष-दर-वर्ष 43.5% अधिक हैं, जबकि इस वर्ष कीमतों में 18.4% से अधिक की वृद्धि हुई है। एसईए के अनुसार, फरवरी 2022 में अरंडीमूल का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 40% बढ़कर 32000 टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021/22 के लिए कुल निर्यात पिछले वर्ष के 3.90 लाख टन से लगभग 5.5% घटकर 3.60 लाख टन रह गया। इसी तरह, फरवरी 2022 में अरंडी के तेल का निर्यात वर्ष-दर-वर्ष 7% बढ़कर 50,200 टन हो गया, जबकि यह अप्रैल-फरवरी की अवधि के लिए 6.1 लाख टन के बराबर है।

उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण मेंथा ऑयल (अप्रैल) की कीमतें लगातार 5 सकारात्मक साप्ताहिक बढ़त के बाद पिछले सप्ताह निचले स्तर पर बंद हुईं। आने वाले सीजन में कम रकबे की उम्मीद के बीच मांग बढ़ने और आवक कम होने से कीमतों में अभी भी तेजी का रूझान है। तत्काल समर्थन 1050 के स्तर और प्रतिरोध 1120 पर है और आने वाले दिनों में 1200 के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में इस सीजन में मेंथा का रकबा कम रहने की उम्मीद है, जबकि निर्यात और घरेलू मांग पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है।

### सर्पाका

अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के अनुमान के अनुकूल रहने के बाद, फेडरल रिजर्व द्वारा दीर्घकालिक आक्रामक नीति को सख्त करने की संभावना के कम करने के बाद, ट्रेजरी यील्ड में कमी के कारण सोने की कीमतों में 1% से अधिक की वृद्धि हुई। मार्च में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कम हो गया, लेकिन कई कारोबारियों के अनुमान से कम था। यद्यपि सोने को मुद्रास्फीति से बचाव माना जाता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकते हैं, बॉन्ड यील्ड को बढ़ा सकते हैं और जिससे बुलियन रखने की अवसर लागत बढ़ सकती है। लेकिन आक्रामक नीतिगत उपायों की संभावना से चिंता बढ़ी है कि फेड एक नीतिगत त्रुटि कर सकता है और मंदी का कारण बन सकता है, बदले में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की कीमतों को मदद मिल सकती है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर लेल ब्रैनार्ड ने कहा है कि अपनी बैलेंस शीट को कम करने और दरों में बढ़ोतरी की एक श्रृंखला के संयुक्त प्रयास से ऊर्जा और खाद्य कीमतों को छोड़कर 'मुख्य वस्तुओं' की मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी, जो एक स्वागत योग्य संकेत है। इससे अल्पावधि में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन फेड अभी भी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अगले महीने दरों में 50 बेसिस प्वाइंट वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। मार्च में मुद्रास्फीति साल-दर-साल 8.5% बढ़ी, जो 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे अधिक मांग वाली वस्तुओं में ऐतिहासिक रूप से अधिक तेजी देखी जा रही है। यूक्रेन के घटनाक्रमों से सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में मदद मिल सकती है। तकनीकी स्तर पर कोमेक्स में सोने की कीमतों में तेजी का रूझान है और कीमतों को 1940 डॉलर के स्तर के पास सपोर्ट जारी रह सकता है और अल्पावधि में कीमतें 2010 के स्तर पर पहुंच सकती है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी का रूझान रह सकता है जहां कीमतों को 51500 के पास सपोर्ट और 54000 के पास रेजिस्टेंस रह सकता है। चांदी भी सोने के नक्शेकदम पर कारोबार कर सकती है और 66500-69800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट के साथ पिछले सप्ताह की शुरुआत हुई, और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे लुढ़क गईं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण चीन में मांग में कमी की आशंका है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उपभोक्ता देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल की रिकॉर्ड मात्रा जारी करने की योजना बनाई है। उसके बाद शंघाई में लॉकडाउन से कुछ छूट दिए जाने और रूसी तेल और गैस घनीभूत उत्पादन 2020 के निचले स्तर तक कम हो जाने से कच्चे तेल की कीमतों में 8% से अधिक की वृद्धि हुई। ओपेक ने चेतावनी दी है कि रूस से आपूर्ति में संभावित कमी की भरपायी करना असंभव होगा। शंघाई ने कहा कि 14 दिनों तक कोई नया संक्रमण नहीं होने की सूचना के बाद 7,000 से अधिक आवासीय इकाइयों को कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन से कपाउंड खोले जा सकते हैं, इसकी घोषणा जिले करते रहे हैं। इस बीच ओपेक ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधों या स्वेच्छिक कार्रवाई की स्थिति में रूसी तेल और अन्य तरल पदार्थों के निर्यात में 7 मिलियन बैरल/दिन की कमी की भरपायी करना असंभव होगा। सूत्रों के अनुसार मार्च में 11.01 मिलियन बैरल से 1-11 अप्रैल के दौरान रूस का औसत तेल उत्पादन 6% से अधिक कम होकर 10.32 मिलियन बैरल/दिन हो गया। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में अधिक अस्थिरता रहने की संभावना है और कीमतें 7300-7880 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें 5.5% बढ़कर 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन एलएनजी टर्मिनलों पर नेचुरल गैस की आवक सपाट रही। अगले 6-10 दिनों में मध्य पश्चिम में मौसम औसत से अधिक ठंडा रहने और अगले 8-14 दिनों में सामान्य से अधिक ठंडा रहने की उम्मीद है। इस परिदृश्य से हीटिंग के लिए मांग बढ़ेगी। आने वाले सप्ताह में नेचुरल गैस का कारोबार 490-530 के दायरे में हो सकता है। हर गिरावट के बाद सपोर्ट के पास खरीदारी का अवसर है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें एक दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों और फेड द्वारा आक्रामक नीति की संभावना से विकास और मांग को लेकर चिंता बढ़ी है। शंघाई लॉकडाउन के झटके से सेंटिमेंट लगातार प्रभावित हो रहा है। लेकिन सख्त प्रतिबंधों के कारण आर्थिक प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के बीच शहर ने कुछ क्षेत्रों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जनवरी-मार्च में चीन का निर्यात एक साल पहले की तुलना में युआन के संदर्भ में 13.4% बढ़ा है जबकि आयात में 7.5% की वृद्धि हुई है। यदि प्रमुख करोंसियों की तुलना में डॉलर में मजबूती जारी रहती है, तो इस काउंटर पर दबाव बना रह सकता है। फेड अधिकारियों ने कहा कि वे आने वाली नीतिगत बैठकों में ब्याज दरों में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रूस पर अधिक प्रतिबंध के बाद रूसी आपूर्ति के बाधित होने के जोखिम से धातु की कीमतों को मदद मिल सकती है। तांबे की कीमतें 800-840 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चीन के रिसर्च हाउस एंटाइके के अनुसार मार्च में कुछ स्मेल्टरों में रखरखाव के बावजूद चीन में तांबे के कैथोड उत्पादन में फरवरी से 0.3% की वृद्धि हुई। जिंक की कीमतें 360 के स्तर पर सपोर्ट के साथ 395 के स्तर पर पहुंच सकती है। लेड की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 182-192 के दायरे में कारोबार कर सकती है। शीर्ष उत्पादक चीन में उत्पादन में गिरावट और बिजली की रिकॉर्ड-उच्च कीमतों के कारण यूरोप में उत्पादन में कटौती, जिससे कम इन्वेंट्री के बीच आपूर्ति में कमी पर चिंता बढ़ जाने, के बाद जिंक की कीमतों में वृद्धि जारी रह सकती है। चीन के रिफाईंड जिंक का उत्पादन मार्च में वार्षिक और मासिक दोनों आधार पर कम हो गया क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप ने कच्चे माल के परिवहन को बाधित कर दिया। एल्युमीनियम की कीमतें नरमी के रूझान के साथ 260-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है। कच्चे तेल की कम कीमतों और चीन में नए लॉकडाउन के कारण विकास और मांग को लेकर चिंता और अधिक ब्याज दर के माहौल से एल्युमीनियम की कीमतों पर दबाव रह सकता है। निकल की कीमतें 2350-2550 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

## आईईएक्स ..... भारत का एक सतत ऊर्जा अर्थव्यवस्था के रूप में बदलाव

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है, जो बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाणपत्रों के भौतिक वितरण के लिए बिजली बाजार में विभिन्न भागीदारों को एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करता है। आईईएक्स ने 27 जून, 2008 को अपना संचालन शुरू किया और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है। यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक पावर एक्सचेंज है जो ऊर्जा आपूर्ति में कमी के परिदृश्य में व्यापार, निपटान और अन्य सेवाएं प्रदान करता है।

आईईएक्स में 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 6,800+ भागीदारों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 55+ वितरण सुविधाओं और 500+ पारंपरिक उत्पादक शामिल हैं। इसके पास धातु, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, सीमेंट, सिरैमिक, रसायन, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, संस्थागत, आवास और रियल एस्टेट, और वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4400+ वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का एक मजबूत आधार है।

आईईएक्स बिजली बाजार, हरित बाजार और प्रमाणपत्रों में ट्रेड करने के लिए विभिन्न आकर्षक विकल्प प्रदान करता है।

### बिजली बाजार

**डे अहेड मार्केट:** डे अहेड मार्केट (डीएएम) मध्यरात्रि से शुरू होकर अगले दिन के 24 घंटों में किसी भी/कुछ/सभी 15 मिनट के समय के लिए डिलीवरी के लिए एक भौतिक बिजली की ट्रेडिंग का बाजार है।

**टर्म अहेड मार्केट:** यह उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो भागीदारों को 11 दिनों तक की अवधि के लिए टर्म आधार पर बिजली खरीदने / बेचने की अनुमति देता है।

रीयल टाइम मार्केट: आरटीएम जून, 2020 में शुरू किया गया था। इसके तहत, बिजली के उत्पादक और खरीदार अगले घंटे में डिलीवरी के लिए व्यावहारिक रूप से वास्तविक समय में बिजली की बिक्री या खरीद के लिए बोली लगाते हैं।

**सीमा पार बिजली व्यापार:** क्षेत्रीय बिजली ग्रिड बनाने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, 17 अप्रैल, 2021 को आईईएक्स पर सीमा पार बिजली व्यापार शुरू किया गया। सीमा पार बिजली एकीकृत दक्षिण एशियाई बिजली बाजार में भारतीय बिजली बाजार का विस्तार करने के लिए एक प्रयास है। इसकी शुरुआत करने के लिए, ग्रिड से जुड़े दक्षिण एशियाई देश जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश एक्सचेंज पर डे फॉरवर्ड मार्केट और टर्म फॉरवर्ड मार्केट में भाग ले सकेंगे।

### हरित बाजार ( ग्रीन मार्केट )

**ग्रीन टर्म अहेड मार्केट:** नवीकरणीय ऊर्जा में व्यापार के लिए एक अलग चैनल-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी बिजली आवश्यकताओं की एक निर्दिष्ट राशि खरीदने के लिए कानून द्वारा बाध्य संस्थाओं के लिए उपयोगी।

**ग्रीन डे-अहेड मार्केट:** ग्रीन डे अहेड मार्केट अक्षय ऊर्जा में गुमनाम और दो तरफा बंद सामूहिक नीलामी की अनुमति देता है।

### सर्टिफिकेट मार्केट

**अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र:** अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) एक बाजार-आधारित उपकरण है जो प्रमाणित करता है कि धारक अक्षय ऊर्जा संसाधन से उत्पन्न एक मेगावाट-घंटे (एमडब्ल्यूएच) बिजली का मालिक है।

**ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट:** ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट ( ESCert ) प्रदर्शन, प्राप्त और व्यापार ( Perform, Achieve and Trade- PAT-II ) योजना के तहत एक उत्पाद है, जिसका उद्देश्य 8.87 मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर की समग्र ऊर्जा की बचत प्राप्त करना है और इसमें 11 ऊर्जा गहन उद्योग क्षेत्रों में फैले 621 नामित उपभोक्ता शामिल हैं।

### टर्नओवर

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने वित्त वर्ष 2021-22 में व्यापार के वॉल्यूम में 38 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,02,035 मिलियन यूनिट की वृद्धि दर्ज की। पिछले वित्त वर्ष में, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 73,941 एमयू (मिलियन यूनिट) था।

एक स्थायी ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में ऊर्जा बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ऊर्जा प्राप्त करने की महात्वाकांक्षा के लिए, प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा बाजार मंच आईईएक्स अधिक प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और लचीलेपन को सक्षम बनाता है जो एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और एक स्थायी ऊर्जा व्यवस्था की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाता है।

वित्त वर्ष	बिजली के व्यापार का कुल वॉल्यूम
2017-18.	46 बिलियन यूनिट
2018-19	52 बिलियन यूनिट
2019-20	53.8 बिलियन यूनिट
2020-21	74 बिलियन यूनिट
2020-21	102 बिलियन यूनिट

स्रोत: आईईएक्स



## एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेवा और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेवा (रिसर्च एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेवा द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एलए द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**डिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवम उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।